



बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank

जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

SHASHI RANJAN KUMAR	सावधि खाता क्र./ FD A/c No	44250300009760
AT BISNATH PUR THANA DUMRA	सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR0801244042
DIST SITAMARHI	कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	069164100
843301	व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	44250400000083
INDIA	शाखा का नाम/Branch Name	DUMRABIHAR

योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	UBL / WORKS EERWD DIVISION SITAMARHI
नामांकन / Nomination	Y	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क हैं) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.	01		
पैन नंबर / PAN No.	BGNPK1330D		
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	व्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
921000	08-01-2024	7.25	25 Months 0 Days	08-02-2026	1069878

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. व्याज दर प्रतिवर्ष में वार्षिक है 2. स्वतः नवीकरण क्लॉज i. यदि अवधि अनुवर्ष न दिखे हो तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। ii. कोई निर्देश न दिखे जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप इसकी ही अवधि के लिए किया जाएगा। 3. जर्म 15 और 15एच सिर्फ निवासी खातों के लिए है। 4. निवासी व्यक्ति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/ 15 एच/ 15एच (जैसे लागू हो) प्रस्तुत किया जाए। अन्यथा खाते पर कर कटौती की जाएगी। 5. जर्म एन केवल 60 वर्ष या अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए है। 6. परिपक्वता आहरण क्लॉज i. रु 1 करोड़ से कम की जमा राशियों को समयपूर्व बंद करने पर 1% दर का प्रावधान है अर्थात् ऐसी जमा राशि के जारी होने की तिथि पर लागू कार्ड दर से 1% कम व्याज का भुगतान किया जाएगा। ii. रु 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशियों को समयपूर्व बंद करने पर 1.5% बंद का प्रावधान है अर्थात् ऐसी जमा राशि पर बंद में रुकी जाने वाली अवधि के लिए लागू कार्ड दर से 1.5% कम व्याज का भुगतान किया जाएगा। रु 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशि के समय पूर्व आहरण के लिए जमा राशि के आहरण से कम से कम 31 दिन पहले बैंक को सूचना दी जानी चाहिए। 7. गैर प्रतिदेय जमा के अन्तर्गत - परिपक्वता पूर्व आहरण की अनुमति नहीं है।	1. Rate of Interest is in percentages per annum 2. Automatic Renewal Clause.. i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. 3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only. 4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individual's for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted 5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age- of 60 years or more) 6. Premature Withdrawal Clause. i). Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. ii) Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank. 7. In case of "NON-CALLABLE DEPOSIT" - Premature withdrawal not allowed
---	---

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature



बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank

जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

SHASHI RANJAN KUMAR DUMRA VISHWANATHPUR DUMRA 843301 INDIA		सावधि खाता क्र./ FD A/c No 44250300010116
		सावधि सूचना क्र./ FD Advice No FDR1603242118
		कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No DJH089432
		व्यवहार खाता / Linked Operative a/c 44250400000101
		शाखा का नाम/Branch Name DUMRABIHAR
योजना / Scheme FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	Use reference EERWD WORK DIVISION SITAMARHI 16/03/24 [Signature]
नामांकन / Nomination Y		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No. 16-03-24		
पैन नंबर / PAN No. BGNPK1330D	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation SELF		
लियन चिह्नित / Lien Marked N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	व्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
1500000	16-03-2024	7.25	25 Months 0 Days	16-04-2026	1742473

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार)/ Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

- व्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है
- स्वतः नवीकरण क्लॉज
 - यदि अन्याय अनुदेश न दिये हों तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देन तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा
 - कई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देन तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा
- फॉर्म 15 जी और 15एच सिर्फ निवासी खातों के लिए है
- निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/ 15 एच/ 15 एए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी
- फॉर्म एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा
- परिपक्वता आहरण क्लॉज
 - रु 1 करोड़ से कम की जमा राशियों को समयपूर्व खंड करने पर 1% दंड का प्रावधान है अर्थात् ऐसी जमा राशि के जारी होने की तिथि पर लागू कार्ड दर से 1% कम व्याज का भुगतान किया जाएगा
 - रु 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशियों को समयपूर्व खंड करने पर 1.5% दंड का प्रावधान है अर्थात् ऐसी जमा राशि पर बैंक में रखी जाने वाली अवधि के लिए लागू कार्ड दर से 1.5% कम व्याज का भुगतान किया जाएगा रु 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशि को समय पूर्व आहरण के लिए जमा राशि के आहरण से कम से कम 31 दिन पहले बैंक को सूचना दी जानी चाहिए
- नैर प्रतिद्वय जमा के अंतर्गत - परिपक्वता पूर्व आहरण की अनुमति नहीं है
- Rate of Interest is in percentage per annum
- Automatic Renewal Clause
 - For Deposits issued for a period of 1 year and above Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise
 - For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise
- Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only
- A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted
- Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)
- Premature Withdrawal Clause
 - Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank
 - Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank
- In case of "NON-CALLABLE DEPOSIT" - Premature withdrawal not allowed

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी।**

पत्रांक

492 /

दिनांक

18/06/24

प्रेषक:-

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी।

सेवा में,

BRANCH MANAGER,
BANK OF BARODA,
DUMRA, SITAMARHI.

विषय:-

F.D. (FIXED DEPOSITE) सत्यापन के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल सीतामढ़ी में शीष नई अनुरक्षण नीति-2018 (MR-3054) योजना अंतर्गत पैकेज संख्या-MR-N/2023-24/SITAMARHI/11 संवेदक Shashi Ranjan Kumar द्वारा समर्पित F.D. (FIXED DEPOSITE) का सत्यापन कर सत्यापित प्रति अधोहस्ताक्षरी के मेल rwd.sit@gmail.com पर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके, जो निम्न प्रकार हैं:-

S.L. No.	FD No.	Issue Date	Expiry Date	Amount
1	44250300009760	08.01.2024	08.02.2026	9,21,000.00
2	44250300010116	16.03.2024	16.04.2026	15,00,000.00
	Total			24,21,000.00

अनु०:- F.D. की छाया प्रति।

विश्वासभाजन

05/06/24

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी।

